



छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय

प्रेस विज्ञप्ति

कल्याणपुर, कानपुर

उत्तर प्रदेश-208024

दिनांक: 22-11-2021

आज दिनांक 22-11-21 को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में पीएचडी स्टूडेंट्स 2021 के ओरियंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय कुलपति महोदय प्रो. विनय कुमार पाठक, विशिष्ट अतिथि आई.आई.टी प्रो. मनींद्र अग्रवाल, प्रो. वी.के सिंह, प्रो. ए.के. शर्मा, प्रो. सूर्यप्रकाश दीक्षित द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।

पद्मश्री पुरस्कृति आई.आई.टी प्रो. मनींद्र अग्रवाल ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कभी-कभी बहुत सारे प्रयासों के बाद भी हमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है, जिससे हम निराश हो जाते हैं। खुद पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे में हमें अपना फोकस नहीं छोड़ना है और प्रयास की इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

वि.वि.कुलपति प्रो.विनय कुमार पाठक ने सभी पीएचडी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में पहली बार 43 विषयों में पीएचडी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि जो भी क्लासेस होंगी उनके सभी लेक्चर को ज्ञान संचय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिससे उन लेक्चरर्स को अपनी सुविधानुसार छात्र दोबारा देख सकते हैं। इसके साथ ही रिसर्च संबंधी सभी मटेरियल को विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर छात्रों को अन्य संस्थाओं की लैब भी उपलब्ध करायी जाएगी। पीएचडी छात्रों के लिए रिसर्च पोर्टल भी बनाए गए हैं, जिससे कि छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

कुलसचिव डॉ.अनिल यादव ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी छात्रों को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ रिसर्च कार्य करने की सलाह देते हुए शुभकामनाएं दी।

डॉ. वर्षा गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया और साथ ही प्रमुख रूप से प्रो. संजय स्वर्णकार, प्रो.सुधीर अवस्थी, डॉ. राशि अग्रवाल, डॉ. आर.के द्विवेदी, डॉ. बीडी पांडे, को खास तौर से धन्यवाद दिया।